





# फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेने बलौदाबाजार कलेक्टर पहुंचे गांव

■ नवप्रवेशी स्कूली बच्चों से की मुलाकात, पहाड़ा पूछकर बच्चों का किया उत्साहवर्धन

**बलौदाबाजार।** बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेने कलेक्टर दीपक सोनी ने गांवों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सिमगा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत डेकुना के आश्रित ग्राम विश्रामपुर तथा ग्राम अडंबंधा, दामाखेड़ा एवं सिमगा नगर में संचालित सहकारी सोसायटी, राशन दुकान, स्कूल भवन, पंचायत भवन का निरीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया।

ग्राम पंचायत डेकुना अंतर्गत ग्राम विश्रामपुर स्थित सहकारी सोसायटी में उपस्थित किसानों और आम ग्रामीणों से मुलाकात कर खाद बीज की उपलब्धता, समय ऋण मिलने के बारे में जानकारी हासिल किए, जिस पर ग्रामीणों ने सरना बीज की कमी के बारे में शिकायत दर्ज कराया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए श्री सोनी ने किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण करते हुए कसडोल से बीज मंगाकर उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत दामाखेड़ा में आजीविका मिशन के तहत बिहान समूह से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करते हुए स्व सहायता समूह की



महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों से जुड़कर जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के सम्बंध में जानकारी हासिल की। महिलाओं ने श्री सोनी को बताया कि बिहान से जुड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है।

दामाखेड़ा में अन्र्पूर्णा स्व सहायता समूह समिति द्वारा अग्रवती निर्माण, अन्य समूह द्वारा केक निर्माण एवं ग्राम अडंबंधा में समूह द्वारा मछली पालन, बकरी पालन किया जा रहा है। श्री सोनी ने स्व सहायता समूह के कामकाज की प्रशंसा करते हुए पूरे जिले के लिए रोल मॉडल बताया। इस मौके पर अडंबंधा में महिला स्व सहायता के समूह द्वारा बकरी शोड की मांग की गई। जिस पर कलेक्टर ने बकरी शोड स्वीकृत करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए हैं। साथ ही उन्होंने मनरेगा के तहत हुए कार्यों पर सतुष्टि जताते हुए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उक्त तालाब में बहुत अच्छे तरीके से मछली पालन

सहित अन्य रोजगार मुलक कार्य भी किए जा सकते हैं। श्री सोनी ने इसके लिए उपस्थित महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा कर जायजा लिया।

कलेक्टर ने ग्राम अडंबंधा के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित हितग्राहियों के घर पहुंचकर निर्मित मकान का अवलोकन किया। इस दौरान मकान मालिक एवं उनके परिवार के सदस्यों ने पक्का मकान बनने से जीवन में हुए बदलाव के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट किया। इसके साथ ही पाइप बिछाने के लिए सीसी रोड के बीचो-बीच गड्ढा करने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

कलेक्टर दीपक सोनी ने ग्राम अडंबंधा के ही प्राथमिक शाला में पहुंचकर पहली कक्षा के नवप्रवेशी स्कूली बच्चों से मुलाकात की। कक्षा 5 वी के बच्चों को श्री सोनी ने पहाड़ा, जोड़ घटना पूछकर एवं सवाल जवाब कर उनका उत्साहवर्धन किया। पहाड़ा पूछने पर बच्चों ने कलेक्टर को पूरा

पहाड़ा पढ़कर सुनाया जिस पर कलेक्टर ने बच्चों को टॉफी भी भेंट की। साथ ही कलेक्टर ने बच्चे होकर क्या बनने का प्रश्न किया। जिस पर बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस बनने की बात की। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पंजी एवं मध्याह्न भोजन सहित शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखा। इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल के लिए अतिरिक्त भवन को मांग की जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र ही कार्रवाई कर निराकरण का आश्वासन दिए हैं।

पहली बार दामाखेड़ा पहुंचे नवपदस्थ कलेक्टर दीपक सोनी ने समाधि स्थल मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिए। इस दौरान श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशवली प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने श्री सोनी को संत कबीर दास जी के गुरुवंश परंपरा, इतिहास एवं स्थान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जिस पर कलेक्टर श्री सोनी ने पुरानी बाते साझा करते हुए बताया की मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू में कबीर के बारे में पूछा गया था उस समय ही मैं दामाखेड़ा के बारे में पढ़ा था आज मेरा सौभाग्य है की मुझे दामाखेड़ा आने का मौका मिला। साथ ही इस दौरान श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशवली प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने पहली बार कलेक्टर के दामाखेड़ा आने पर उन्हें श्री फल, साल एवं किताब भेंटकर सम्मान किया।

**30 बेड हॉस्पिटल के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश**

बलौदाबाजार में स्वास्थ्य सुविधाओं का



जायजा लेने कलेक्टर दीपक सोनी ने सिमगा नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने इस दौरान ओपीडी पंजीयन रजिस्टर, हमर लैब, महिला एवं पुरुष वार्ड, ऑपरेशन कक्षा, प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर, ट्रॉमा यूनिट, डेंटल एवं आयुष्मान रजिस्ट्रेशन क्लेम रजिस्टर का अवलोकन कर जायजा लिया। इसके साथ उन्होंने भर्ती हुए मरीजों एवं उनके परिजनो से बातचीत कर व्यस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। भर्ती हुए मरीजो ने कलेक्टर को समय पर भोजन एवं डाक्टरों द्वारा नियत समय में जांच करने की बात बताई गई।

कलेक्टर ने हॉस्पिटल में और अधिक सुधार के निर्देश सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही निर्माणधीन 30 बेड अस्पताल एवं ऑफिस भवन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाते हुए समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, एसडीएम सिमगा अंशुल वर्मा, सीएचएमओ डॉ. महिंस्वर, डीपीएम सृष्टि मिश्रा, सीईओ, सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे।

**किसान से रिश्त लेते पटवारी गिरफ्तार**

**खैरागढ़।** जिले में एक बार फिर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी कर्रेशन ब्यूरो ने प्रकाशपुर के पटवारी विवेक परचनिया को रिश्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी को खैरागढ़ के व्यवहार न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही। यह कार्रवाई किसान की शिकायत पर की गई। मिली जानकारी के मुताबिक, खैरागढ़ जिले के प्रकाशपुर हल्का नंबर 11 में पदस्थ पटवारी विवेक परगनिया टोलागांव के किसान किशोर दास साहू से जमीनी कागजात में सुधार के नाम पर रिश्त मांग रहा था। कई दिनों से किसान पटवारी का चक्कर लगा रहा था। कार्य नहीं होने पर किसान ने एंटी कर्रेशन ब्यूरो में शिकायत की। शिकायत की जांच के बाद शुक्रवार सुबह एसीबी 8 सदस्यीय टीम प्रकाशपुर पहुंची, जहां पटवारी को 4 हजार रुपए के साथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पटवारी राजनानंदगांव के ममता नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई की। पटवारी को खैरागढ़ के व्यवहार न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

## किशोर पब्लिक स्कूल पर छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप, जांच के आदेश

■ कलेक्टर और शिक्षा विभाग से शिकायत

**कोरबा।** कोरबा में स्कूल के पट खलते ही निजी स्कूल प्रबंधकों की मनमानी सामने आने लगी है। कोरबा के देवरमाल में रहने वाले एक व्यक्ति ने किशोर पब्लिक स्कूल के खिलाफ आवाज बजा उठाई स्कूल प्रबंधन ने उसकी पांच वर्षीय बेटी के स्कूल आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं स्कूल वाहन की व्यवस्था भी बंद कर दी गई। मामले को शिकायत कलेक्टर और शिक्षा विभाग से की गई है, जिसके द्वारा जल्दी कार्रवाई की जा रही है।

कोरबा के देवरमाल गांव में संचालित किशोर पब्लिक स्कूल विवादों में आया है। स्कूल प्रबंधन पर एक पांच साल की बच्ची को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाला व्यक्ति उसका पिता है। पिता का कहना है, कि स्कूल के शिक्षक बच्चों को सही ढंग से नहीं पढ़ाते हुए, शिक्षक बदलने की बात पर प्रबंधन द्वारा बार बार फीस की मांग की जा रही है। फीस नहीं देने की स्थिति में प्रबंधन ने बच्ची के स्कूल आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इतना ही नहीं स्कूल वाहन की सुविधा भी छीन ली गई। पिता ने कलेक्टर और शिक्षा विभाग से मामले को शिकायत की है।

शिकायत कर्ता अनिल पटेल ने बताया कि की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहां शिक्षक को खुद

पढ़ना नहीं आता जो होमवर्क डायरी में लिखकर भेजती है स्पेलिंग और मात्रा गलत होते हैं उसने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई जहां उसने ऑफिस देने से मना किया और छत को हटाने की मांग की गई जब वह इसका विरोध करने लगा तो बच्चों को ही स्कूल से निकालने की बात कही

स्कूल बस से लेने नहीं आती और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है इन सब बातों को लेकर उसने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है जहां जांच के आदेश के बाद रिपोर्ट अब तक नहीं आई कहीं ना कहीं वह बच्चों के भविष्य को लेकर काफी परेशान है।

शिकायत को शिक्षा विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है और कुदुरमाल सरकारी स्कूल को जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हमने स्कूल प्रबंधन से बात की तब उन्होंने कहा, कि बच्चे के स्कूल आने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ना ही फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। स्कूल वाहन का फीस नहीं पटाए जाने के कारण ही वाहन की व्यवस्था बंद की गई है। बच्ची को प्रताड़ित करने की बात से साफ इंकार उनके द्वारा किया गया है।

## बेदमति को एक माह में ही मिली अनुकंपा नियुक्ति

**गरियाबंद।** मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सरकार लोगों के हित में त्वरित कार्य कर रही है। समय सीमा के अंदर जरूरतमंद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकें, शासन इस पर लगातार प्रयास कर रही है। गरियाबंद जिले की श्रीमती बेदमति ध्रुव को आवेदन करने के 1 माह में ही अनुकंपा नियुक्ति मिली है। शासन की त्वरित कार्यवाही के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

गरियाबंद जिले की श्रीमती बेदमति ध्रुव के पति धानेन्द्र प्रताप ध्रुव ग्राम पंचायत सचिव थे। 3 जून 2024 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। 19 जून को श्रीमती ध्रुव ने जनपद पंचायत गरियाबंद में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव ने आवेदन में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 माह के भीतर ही आवेदन के परीक्षण बाद 26 जून 2024 को उनकी अनुकंपा नियुक्ति स्वीकृत कर ली। अब श्रीमती ध्रुव को गरियाबंद जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत मालगांव (प्रशासनिक) में पंचायत सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। गौरतलब है मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 27 जून को आयोजित जनदर्शन में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आए हुए आवेदनों का निराकरण संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं।

## गोलीकांड के आरोपी के घर प्रशासन ने चलाया बुल्डोजर

**दुर्ग।** छत्तीसगढ़ के भिलाई के टाउनशिप ग्लोब चौक में फायरिंग करने वाले आरोपी के घर पर बुल्डोजर कार्रवाई की गई है। आरोपी ने भिलाई सेक्टर 6 के सड़क 31 की बिल्डिंग में अवैध कब्जा कर घर बनाया था।

जिसपर बीएसपी के इंफोर्मंट विभाग के अधिकारी और तोड़ दस्ता ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंच कर बुल्डोजर कार्रवाई की है। यह बुल्डोजर कार्रवाई बीएसपी तोड़ दस्ते की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

बता दें, भिलाई के टाउनशिप ग्लोब चौक में मंगलवार-बुधवार दिमियानी रात नशे में धुत आरोपी अमित जोश ने एक विवाद के बीच तीन राउंड फायरिंग कर दी थी, इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी और दोनों की हालात गंभीर बनी हुई



है। दोनों को इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों घायलों में से एक सुनील यादव जिओ कंपनी का कर्मचारी है और दूसरा आदित्य सिंह उडान अकादमी में पीएसपी की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार, बदमाश अमित जोश के खिलाफ दुर्ग पुलिस के पास 49 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अमित जोश को जिला बदर करने की मांग की है। यानि आरोपी को जिला बदर करने के बाद वह जिले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता।

## जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही, हटाए गए ईई

**बलरामपुर।** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता को हटा दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में वांछित प्रगति नहीं होने तथा लक्षित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने में कठिनाई पाए जाने पर विभाग ने वहां के प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री आदित्य प्रताप को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रमुख अभियंता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विगत 20 जून को हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह परिलक्षित हुआ है कि बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन का कार्य संतोषजनक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बताने के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के लक्षित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए वांछित गति नहीं दिए जाने से बलरामपुर जिले में मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप वांछित प्रगति प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आदित्य प्रताप को आगामी आदेश तक बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

## छत्तीसगढ़

### प्रमुख समाचार

### एसडीएम ने भानपुरी सरपंच को गिरफ्तार करवा भेजा जेल

**जगदलपुर।** न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच श्रीमती मुंदाई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। सरपंच श्रीमती मुंदाई बघेल के द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुरी की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्य की राशि 55 लाख 42 हजार 875 रुपये को प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। एसडीएम कार्यालय द्वारा सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल परित्त या संचित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, किन्तु निर्देशित धन राशि परित्त करने में असफल रहने के कारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बस्तर द्वारा श्रीमती मुंदाई बघेल को पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अधिक से अधिक 20 दिन (26 जून से 16 जुलाई 2024 तक) की कालावधि के लिए या अभिलेख प्रदत्त किये जाने तक या उक्त धन संचित किये जाने तक सिविल जेल में परिरुद्ध रखा गया है।

### व्यापारियों से राज्य कर के अधिकारियों ने की चर्चा

**जगदलपुर।** बस्तर संभाग में जीएसटी के माध्यम से राजस्व वृद्धि की संभावना एवं राजस्व लक्ष्य की समीक्षा, ई-वे बिल प्रणाली की सुगमता के प्रयास हेतु राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने राज्य कर कार्यालय जगदलपुर का दौरा निरीक्षण किया। राज्य कर मुख्यालय रायपुर के अपर आयुक्त श्री टीआर ध्रुव, संभागीय संयुक्त आयुक्त श्री सीआर महिलिंग ने राज्य कर कार्यालय जगदलपुर के वृत्त-एक एवं दो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभागीय कार्य समीक्षा की। कार्यालय में बस्तर जिले के व्यापारियों की समस्या के निवारण हेतु इज ऑफ ड्यूटी बिजनेस के अन्तर्गत चल रहे कार्यों का अवलोकन किया गया। एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरान, एनएमडीसी माइनिंग किरंदुल, एनएमडीसी माइनिंग बचेली के अधिकारियों से राजस्व वृद्धि के उपायों से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही ई-वे बिल प्रणाली का सुगमता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु बस्तर परिवहन संघ एवं बैलाडीला टूक ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक रूप से ई-वे बिल जारी करने को कहा गया।

### प्लेसमेंट केम्प का 02 जुलाई को होगा आयोजन

**अम्बिकापुर।** उपसंचालक, रोजगार ने बताया कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अम्बिकापुर के द्वारा 02 जुलाई 2024 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया गया है। जिसमें निजी नियोजक अवी एसोसिएट के पार्टनर श्री नितिन दुबे उपस्थित रहेंगे। जिसके अंतर्गत ऑपरेटर के 20 पद एवं इंस्टॉलर के 20 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदकों की योग्यता न्यूनतम 12 वीं पास होगी संभावित वेतन 10 हजार से 12 हजार रुपए निर्धारित है। प्लेसमेंट केम्प पूर्णतः नि:शुल्क है। नियुक्ति के शर्तों के लिए नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे, कार्यालय की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। उन्होंने बताया कि जिले के इच्छुक ऐसे समस्त आवेदक जो शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो के साथ 02 जुलाई 2024 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, गंगपुर में उपस्थित होकर अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

### तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, युवक घायल



**जगदलपुर।** जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के महिंद्रा शो रूम के आगे एक तेज रफ्तार कार बीती रात अनियंत्रित होने के कारण पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया। जिसे बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया है। जानकारी के मुताबिक, बीती रात तेज रफ्तार बारिश के चलते जगदलपुर से परपा की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। चालक बारिश के चलते सड़क को समझ नहीं पाया। और कार सड़क किनारे पेड़ के बीचोबीच जा टकराई। जिससे कार में सवार हरिनाथ पाठक 42 वर्ष घायल हो गए, जिन्हें मेकाज लाया गया है।

### ससुराल गए युवक पर टंगिया से किया जानलेवा हमला

**गौरेला पेंड्रा मरवाही।** गौरेला में अपने ससुराल गए युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक को टंगिया मार कर घायल कर दिया। जहां घायल का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। जहां पेण्ड्रा थानाक्षेत्र के तेंदुपारा का रहने वाला सुरेश चौधरी अपने ससुराल नेवरी नवापारा गया हुआ था। जहां पर रहने वाला आरोपी नरेंद्र राठौर के द्वारा किसी बात को लेकर विवाद हुआ और अचानक उसने सुरेश चौधरी पर टंगिया से जानलेवा हमला कर दिया। जिसके बाद सुरेश के ससुराल वालों ने खून से लथपत सुरेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया है। सुरेश को सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं पुलिस ने मामले में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर आरोपी नरेंद्र राठौर को गिरफ्तार कर लिया है।

## बीजापुर में दो इनामी समेत 7 नक्सली गिरफ्तार

**बीजापुर।** जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 07 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नक्सली पर 1 लाख रुपये का नगद इनाम है।



पार्टी ने केशामुण्डीपारा केशकुतुल, सुराखाड़ा, केशकुतुल और तुरेनर से कुल 07 नक्सलियों को भागते हुए घेराबंदी कर पकड़ा है। सुरक्षाबलों ने पकड़े गए नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री, टंगिया, माओवादी प्रचार-प्रसार की सामग्री, पाम्पलेट बैनर आदि बरामद किया है।

एसडीओपी तरेश साहू ने कहा इस अभियान के दौरान 1-1 लाख के दो इनामी समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट और लेवी वसुली के काम में संलग्न

थे। जिनके खिलाफ थाना भैरमगढ़ में सैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।

गिरफ्तार नक्सलियों में से रामधर वेको (24) माओवादियों के केशकुतुल जनताना सरकार दस्ते के प्रमुख के रूप में 2015 से सक्रिय था। उसके सिर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। दूसरा नक्सली मलू उरसा (35) भी एक लाख का इनामी है, जो 2008 से सक्रिय रहा। सुखराम कोवासी (30) साल 2008 से सक्रिय रहा। साई वेको (31) मिलिशिया सदस्य के रूप में 2008 से कार्यकर्ता रहा है। लाल सिंह कवासी (25) मिलिशिया सदस्य के रूप में 2015 से सक्रिय रहा। राणू लेकाम (25) मिलिशिया सदस्य के रूप में 2015 से सक्रिय था और सना उरसा (34) मिलिशिया सदस्य के तौर पर साल 2010

से सक्रिय रहा। पकड़े गये नक्सलियों के खिलाफ भैरमगढ़ थाना केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया है।

बीजापुर पुलिस के पकड़े गए नक्सली भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में 18 अप्रैल 2022 को जल जीवन मिशन के तहत पाईप लाइन बिछाने के कार्य में लगी जेसीबी वाहन में आगजनी की घटना में शामिल थे। वहीं 17 फरवरी 2023 को भैरमगढ़ ओडसा पदमपारा डेम के पास वाहन में आगजनी की घटना, 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस पार्टी पर आईईडी विस्फोट की घटना, 21 अप्रैल 2024 को केशकुतुल के जंगल में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की घटना, 25 अप्रैल 2024 को केशामुण्डीपारा-केशकुतुल के पास पुलिस पार्टी पर दृग्ध विस्फोट करने की घटना में शामिल थे।

## प्राकृतिक आपदा में मृतक के वारिस को राशि स्वीकृत

**अम्बिकापुर।** जिले के कलेक्टर ने तहसील लुण्डा के बगदरी निवासी फुलकुंवर की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस मानती, तहसील लुण्डा के करेसर निवासी मानमति की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस राजकुमार, तहसील लुण्डा के कोट निवासी महेश एक्का की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस प्रतिमा एक्का, तहसील लुण्डा के कोरंधा निवासी बजरंग राम की आकाशीय बिजली गिरने से उनके वारिस फूलपति, तहसील लुण्डा के छेरमुण्डा निवासी केन्दली बाई की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस शिवरतन, तहसील धौरपुर के पड़ोली निवासी रजिन्दर की मृत्यु मधुमक्खी के काटने से उनके वारिस कार्तिक यादव, तहसील लुण्डा के डगांव निवासी फुलकुंवर की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस अनन्तराम, तहसील धौरपुर के पटोरा निवासी राजत यादव की मधुमक्खी के काटने से उनकी वारिस रुपा, तहसील धौरपुर के सखौली निवासी तेजू राम की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस लक्ष्मनिया, तहसील रघुनाथपुर के जमड़ी निवासी कलेश्वरी की मृत्यु मधुमक्खी के काटने से

उनके वारिस तेजान, तहसील रघुनाथपुर के बकनाकला निवासी अनुराग सिंह की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस हरिवंश सिंह, तहसील धौरपुर के चितरपुर निवासी कोन्दो की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस छटन, तहसील दरिमा लिबरा निवासी अंजली बखला की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस विनिता बखला, तहसील दरिमा के पोड़ुंकला निवासी नान राम पेकरा की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस सुमित्रा बाई, तहसील अम्बिकापुर के रामपुर निवासी रामबाई की मधुमक्खी के काटने से उनके वारिस श्यामलाल दास, तहसील अम्बिकापुर के भिठुंकला निवासी विकास विश्वकर्मा की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस जोशुा बाई, तहसील अम्बिकापुर के केशवपुर निवासी कौशल सिंह की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस सविता सिंह, तहसील अम्बिकापुर के लब्डी निवासी मुन्नी बाई की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस जूटन, तहसील अम्बिकापुर के सखौली निवासी सुर्जिल सिंह की मृत्यु आग से जलने से उनके वारिस केश्वर को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।



## संक्षिप्त समाचार

## योजनाओं के नाम बदलने पर गरमाई सियासत, विधायक ने सरकार को घेरा



रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के नाम को बदल कर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर काम करके दिखाइए। इसके साथ ही उन्होंने 22 जुलाई से शुरू होने जा रही विधानसभा सत्र को लेकर भी मांग रखी है। कांग्रेस विधायक निषाद ने साय सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो नाम बदलने का काम कर रही है। सरकार बनने के बाद से अब तक सात महीने में सरकार का काम धरातल पर दिखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केवल महतारी वंदन और किसानों को जो राशि मिली, उसके बाद कोई काम बात देज योजनाओं के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आप धरातल पर काम कर कर दिखाइए जो कार्य धरातल में हुए हैं और जनता को लाभ मिला है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और यह 5 दिनों तक चलेगा। इसे लेकर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने राज्य विधानसभा के सत्र की अवाधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सत्र बेहद ही छोटा है, समय बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के 6 माह के कार्यों पर चर्चा के लिए समय पर्याप्त नहीं है। विपक्ष दर्जनों मुद्दों के साथ सत्र के लिए तैयार है, मगर सत्र की अवाधि बहुत ही छोटी है।

## राज्यपाल के विधिक सलाहकार को दी गई भावभीनी विदाई

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के



विधिक सलाहकार श्री राजेश श्रीवास्तव अपनी अर्धवार्षिकी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर उनको आज राजभवन में भावभीनी विदाई दी गई। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने उनके उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि श्री श्रीवास्तव ने राजभवन में पदस्थाना के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है। किसी भी फाइल के निराकरण में कानूनी पहलुओं की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। विधिक सलाहकार के पद पर रहते हुए श्री श्रीवास्तव ने दक्षता पूर्वक अपना कार्य करते हुए फाइलों के सही तरीके से निराकरण में सहयोग किया। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि उनका भावी जीवन सुखमय रहे। राज्यपाल ने श्री श्रीवास्तव को शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार ने भी श्री श्रीवास्तव के सुखद भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित राजभवन के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

## मंत्री नेताम से एससी-एसटी कर्मचारियों संगठन के पदाधिकारियों ने की मुलाकात

रायपुर। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम से मंत्रालय महानदी भवन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल विशेष रूप उपस्थित थे। इस मौके पर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने मंत्री श्री नेताम से मिलकर जापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री नवीन मार्कंडेय, समाज सेवी श्री विकास मरकाम सहित प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद बहारही, प्रदेश संरक्षक श्री विनोद भारती, श्री डी एल भारती, श्री चंद्रवंशी, श्री अनिल कुमार बनज, श्री ए के बंजारा, श्री संदीप पैकार, श्री मनहरन चंद्रवंशी, श्री कैलाश नेताम तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

## विधानसभा अध्यक्ष के परिचर में शोक की लहर, सीएम ने प्रकट की संवेदना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के परिचर के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की बहन इला कल्चुरी के घर से शोक की खबर प्राप्त हुई है। जिसमें उनके पति और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के जीजाजी महेंद्र कल्चुरी के दिवंगत होने का दुखद समाचार मिला है। उन्होंने बताया कि महेंद्र कल्चुरी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और आज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महेंद्र कल्चुरी के देहावसान से डॉ रमन सिंह के परिवार में शोक का वातावरण है। महेंद्र कल्चुरी अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिसमें बेटा साकेत- बहू शैलजा कल्चुरी, बेटा शान्तनु डूब बहु कविता कल्चुरी के साथ बेटा सोनल सिंह और नाती पोते में शुभी, शौर्य, ईशान, मोहवी, अनय और आरिका हैं। 28 जून को सुबह 11:30 बजे महेंद्र कल्चुरी का अंतिम संस्कार देवेन्द्र नगर स्थित मुक्तिधाम में किया गया। सीएम साय ने अपने टवीटर हैंडल पर भी महेंद्र कल्चुरी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है।

## जंगल बचेगा तो आजीविका के साधन भी बढ़ेंगे: नेताम

## सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं के लिए आजीविका संवर्धन पर दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि ईश्वर ने हमें प्रकृति के गोद में जन्म दिया है। राज्य के विशेषकर बस्तर और सरगुजा के बहुतायत आदिवासियों का जीवन वन संसाधन पर आश्रित है। यदि जंगल नहीं बचेगा तो हमारे आजीविका के साधन भी कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जंगल बचेगा तो आजीविका के साधन बढ़ेंगे। हमें कर्तव्यनिष्ठ के साथ जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। वनों का सुरक्षा हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। मंत्री नेताम आज नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान संस्थान में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं के लिए आजीविका संवर्धन विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन



सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। मंत्री नेताम ने कहा कि व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं को आगामी एक वर्ष के भीतर बेहतर तरीके से क्रियाशील किया जाए। वे बीडिंग कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी एफआरए प्रतिनिधियों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। हस्तसंभव उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ

जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामवासी जंगल और जमीन को सुरक्षित रख सकेंगे। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि गांवों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, भले ही उनके पास डिग्री व डिप्लोमा न हो, किन्तु अंतरात्मा की आवाज और जीवन का अनुभव बहुत कुछ बता देता है। ऐसे लोगों को आदिम समाज के विकास के लिए आगे आने की जरूरत है।

## छत्तीसगढ़ कांग्रेस को करेंगे मजबूत : वीरप्पा मोइली

रायपुर। कर्नाटक के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। यहां वीरप्पा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में एक बैठक लेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगामी दिनों की रणनीति भी तैयार की जाएगी।



उन्होंने झामा किया वह काम नहीं आया। कांग्रेस ने चुनाव में बेहतर काम किया है-वीरप्पा मोइली, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ, प्रियंका गांधी के जय संविधान के नारे पर वीरप्पा मोइली ने कहा- मैं हमेशा इरिटेट होता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इरिटेशन है। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि संविधान को कैसे बचाया जाए। हम यहां संविधान को बचा रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

## कांग्रेस संगठन के अंदर होगा

## बड़ा बदलाव: लखमा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया है। कवासी लखमा ने कहा कि अभी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं लेकिन अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे। कवासी लखमा का दावा है कि देश की जनता ने राहुल गांधी को लेकर मन बना लिया

है। आने वाले चुनाव में इसके बेहतर परिणाम देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में संगठन बदलाव को लेकर कवासी लखमा ने कहा कि संगठन में बदलाव का काम सोनिया गांधी राहुल गांधी और खड़गो साहब का है। हमारा काम है पार्टी में दरी बिछाना, झंडी लगाना, नारा लगाना और पार्टी का काम करना है संगठन में परिवर्तन हाई काम का काम है। कवासी लखमा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पार्टी में समीक्षा हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले विधानसभा और इस लोकसभा चुनाव में निराश किया है। जनता के बीच जाकर समीक्षा करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध को लेकर कवासी लखमा ने बीजेपी और गृहमंत्री विजय शर्मा पर भी निशाना साधा।

कवासी लखमा ने कहा जो हाल पहले बस्तर का था, वो अब कवर्धा का है। कवर्धा में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। गृहमंत्री अब टीवी पर आना भी बंद कर दिए हैं। ऐसे गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कवासी लखमा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन चाकूबाजी जैसी घटना हो रही है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस और हिंदू संगठन विरोध का दिखावा करते हैं। इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग का काम है।

## कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर डिप्टी सीएम साव का तंज

## कहा- देखना होगा किस पर फूटेगा हार का ठीकरा

रायपुर। विधानसभा और लोकसभा में मिली हार को लेकर कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है। साव ने कहा, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठक का अधिकार है। कांग्रेस हार पर समीक्षा करेगी। हार का ठीकरा किस पर फूटेगा, यह देखने वाली बात है।

## सीएम विष्णुदेव साय के

दिल्ली दौरे को लेकर साव ने कहा, सीएम दिल्ली दौरे पर हैं। संगठन की लगातार बैठकें हैं। बैठकों में अलग-अलग संगठनात्मक विषयों पर बातचीत होगी। मानसून सत्र में कांग्रेस कई मुद्दे उठाएगी, इस पर डिप्टी सीएम साव ने कहा, सरकार हर मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रदेश के वातावरण को

खराब करने की कोशिश कर रहा। कांग्रेस की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी सरकार ने नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया, कांग्रेस के इस बयान पर अरुण साव ने कहा, पांच साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और उन्हें घर बैठा दिया। वो अपनी बातें न कहे।

## छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम संसद में हुई बेहोश

## रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। संसद सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को नीट पेपर मामले को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध-प्रदर्शन में फूलो देवी नेताम भी शामिल हुई थी। इसी दौरान वे बेहोश हो गईं। आनन-फानन में फूलो को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है।



सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना तब हुई, जब सदन के अंदर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष विरोध-प्रदर्शन कर रहा था। हंगामे के बीच फूलो देवी की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गईं। साथी सांसदों ने फूलो देवी को संभाला और तुरंत एंबुलेंस बुलाई। संसद परिसर में फूलो देवी को लेकर जाने का वीडियो सामने आया है। इसमें आगे आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी बैठी दिख रही हैं। बता दें कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने पिछले साल अगस्त में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए फूलो देवी नेताम समेत 12

विपक्षी सांसदों को कदाचार का दोषी ठहराया था। गुरुवार को इन सदस्यों को भविष्य में इस तरह के व्यवहार नहीं करने के चेतावनी दी थी। गुरुवार को विशेषाधिकार पैनल ने राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की। पैनल ने रिपोर्ट में कहा फूलो देवी को भविष्य में ईमानदारी से अनुकरणीय आचरण का पालन करना चाहिए। फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कोंडगांव की रहने वाली हैं और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। वे 14 सितंबर 2020 को कांग्रेस के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं।

## रामभक्तों की सेवा से छत्तीसगढ़ हुआ धन्य : मुख्यमंत्री साय

## रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे छत्तीसगढ़ के सभी रामसेवकों का अपने निवास परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्री साय ने सभी रामभक्त 6 समितियों को शाल श्रीफल और श्री रामलला की धातु की मूर्ति भेंटकर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे प्रभु श्री रामलला दर्शन अभियान समिति के अंतर्गत सभी 6 समितियों के साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी समितियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजित होने के साथ ही रामभक्तों की 500 सालों की मनोकामना पूर्ण हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रभु श्रीराम का निहाल हमारा छत्तीसगढ़ है और हम भांचा के रूप में श्री राम को

पूजते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के इन 6 समितियों के जन्मे की सराहना करते हुए कहा कि ये समितियां स्वमेव प्रेरित होकर अयोध्या पहुंची और पूरी सेवाभाव के साथ वहां दर्शन करने आ रहे लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं को पूरे 60 दिनों तक भोजन कराया। यह छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ से अयोध्या में रामभक्तों के लिए चालल, सब्जी और डॉक्टर की टीम भेजी गई थीं और उन टीमों को भी सराहना करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुगण अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन के बाद वाराणसी और प्रयागराज का दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ से अब तक 8 आस्था स्पेशल ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं।

## इलाज में लापरवाही, सिविल सर्जन निर्लंबित

रायपुर। कोरिया जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. राजेंद्र बंसारिया, अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर द्वारा मरीज का ऑपरेशन करने हेतु राशि की मांग की गई थी तथा मरीज के परिजनों द्वारा राशि नहीं दिए जाने के कारण मरीज का इलाज नहीं किया गया। डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। अतः राज्य शासन ने डॉ. राजेंद्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निर्लंबित कर दिया है।

## छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग कार्यालय मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछर, रायपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्वैरमेंट निविदा सूचना eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>

(प्रथम आमंत्रण) सिस्टम निविदा क्र. 155224/ निविदा सूचना क्र. 01/वलेलि/2024-25, डोंगरगंज दिनांक 26.06.2024 निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 18.07.2024 17:30 तक ऑन लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

कार्य का नाम- राजदंगवा जिले के विकासखण्ड छूरिया की घुमरिया नदी में बारदाटोला से चोहाहवांजरो एनोकर काम काजचे निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत- रु. 268.86 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्वैरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर दिनांक 03.07.2024 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किंजे जा सकते हैं।

नोट:- निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्वैरमेंट वेबसाइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एनकीट पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यालयल अभियंता जल संसाधन वैराज सभाग, डोंगरगंज कृत मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछर, जल संसाधन विभाग, रायपुर, छ.ग.

जी-242500632/5

## आरडीए के ऑन लाईन पेमेन्ट की शुरुआत

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण के इन्द्रप्रस्थ रायपुर फेस-2 के प्लैट्स के निवासी अब जलशुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। आवास एवं पर्यावरण की सचिव सुश्री आर. शंतीता की उपस्थिति में इसका प्राधिकरण कार्यालय में शुभारंभ किया गया। इससे अब इन्द्रप्रस्थ रायपुर फेस-2 के प्लैट्स के निवासियों को जलशुल्क जमा करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका भुगतान रायपुर विकास प्राधिकरण के रिपोर्ट अनुसार दिए गए मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करने के उपरांत किया जा सकेगा। राशि का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से किया जा सकेगा। रायपुर विकास प्राधिकरण में आज



संचालक मंडल की बैठक हुई। इसमें देवेन्द्रनगर स्थित सिटी सेन्टर मॉल के पीछे एकता मॉल निर्माण के लिए निविदा दर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना के सेक्टर 1, 2, 8ए, 8बी, 10, 11बी, 14ए एवं 14बी में 253 दो बीएचके ईडब्ल्यूएस प्लैट्स तथा रो हाऊस निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदार का कार्य निरस्त कर उसे ब्लैक लिस्ट (डीबार) करने का निर्देश दिया

गया। बैठक में ठेकेदार की रिस्क एंड कॉस्ट पर शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम निविदा राशि 14.125 करोड़ रुपए की स्वीकृति देते हुए नई निर्माण एजेंसी को नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया। प्राधिकरण कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता रायपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष वावासा एवं पर्यावरण विभाग की सचिव सुश्री आर. शंतीता ने की। बैठक में जिस पीएम एका माल के निर्माण एजेंसी को नियुक्त की स्वीकृति दी गई वह देवेन्द्रनगर के छत्तीसगढ़ हॉट के खुश पर निर्मित होगा। पीएम एकता मॉल में सभी राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की दुकानें होंगी तथा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के हस्तशिल्प उत्पादों की दुकानें होंगी।

## छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्वैरमेंट निविदा सूचना eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>

निम्न क्रमांक 02,03,04/वलेलि/2024-25 जगदलपुर, दिनांक 26/06/2024 एनकीट पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.0 लाख में)	अमान राशि (रुपये)	निर्माणित समय/वर्षावधि
1	2	3	4	5	6
01	155227	बस्तर जिले के विकासखण्ड जगदलपुर की कुम्हारगढ़ उद्भन सिंचाई योजना के नहर लाईनिंग कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	319.49 लाख	1.60 लाख	12 माह वर्षाकाल सहित
02	155229	बस्तर जिले के विकासखण्ड बकाण्ड की चोटीपुर तालाब का शीशं बांध मरम्मत कार्य एवं नहर मरम्मत कार्य एवं नहर लाईनिंग कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	237.92 लाख	1.50 लाख	11 माह वर्षाकाल सहित
03	155231	बस्तर जिले के विकासखण्ड बकाण्ड की उत्तमर जलाशय का शीशं एवं मुख्य नहर व लघु नहर का मरम्मत कार्य एवं लाईनिंग कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	227.44 लाख	1.50 लाख	11 माह वर्षाकाल सहित

1. बिड प्रारंभ की तिथि - 03.07.2024 17:31 Hours  
निविदा समाप्त की अंतिम तिथि - 18.07.2024 17:30 Hours  
रिमांक:- उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा, निविदा विधि, निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्वैरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> में दिनांक 03.07.2024 समय 17:31 बजे से डाउनलोड किंजे जा सकते हैं।

कार्यालयल अभियंता जल संसाधन वैराज सभाग, जगदलपुर कृत मुख्य अभियंता महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर, छ.ग.

जी-242500626/12







## समाचार पचीसा

रायपुर, शनिवार 29 जून 2024

# नीतिगत खामियों से बच कर रहे बजट

### ए के भट्टाचार्य

खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक में उद्योग जगत की ओर से यह मांग की गई है कि उन कंपनियों को प्रत्यक्ष कर दरों में राहत प्रदान की जाए जिनकी कर योग्य आय 20 लाख रुपये तक है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल कीमतों में उत्पाद शुल्क कम करने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी में इजाफा करने तथा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अथवा पीएम किसान के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाने की बातें भी शामिल हैं।

एक औद्योगिक संगठन ने तो वस्तु एवं सेवा कर को तीन दरों वाली प्रणाली में बदलने तथा पूंजीगत लाभ कर के जटिल ढांचे को सरल करने की भी मांग की। अब सवाल उठता है कि सरकार की इन अनुशंसाओं को स्वीकार करने और जुलाई में पेश होने वाले बजट में इनकी घोषणा करने की क्या संभावना है? इन अनुशंसाओं से परे उन अहम मुद्दों का आकलन करना भी जरूरी है जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में नजर आ सकते हैं। विभिन्न जीएसटी दरों को तीन दरों में समाहित करने की मांग उपयुक्त है। ऐसा करके राजस्व निरपेक्ष दर को बढ़ाया जा सकता है और कर संग्रह में सुधार किया जा सकता है। परंतु आम बजट में ऐसी घोषणाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति इस मसले का परीक्षण कर रही है और इस समिति की

अनुशंसाओं के आधार पर जीएसटी परिषद इस पर निर्णय ले सकती है। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में जीएसटी दरें कम करने के सवाल पर केंद्र का रुख स्पष्ट करेंगी? लगता तो नहीं। वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक समान सरल पूंजीगत लाभ कर ढांचे की मांग भी उचित ही है। यह अनुशंसा विशेष रुचि का विषय होगी जिसमें उद्योग संगठन की मांग है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाने के लिए धारण अवधि को 12 महीने के समान स्तर पर लाया जाना चाहिए तथा दरों को 10 फीसदी करना चाहिए। इसी प्रकार अल्पावधि के पूंजीगत लाभ कर की दर की बात करें तो वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए इसे 15 फीसदी होना चाहिए। पूंजीगत लाभ के ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने का सुझाव उचित है। इसमें सुधार का मूल विचार कुछ वर्ष पुराना है। अब सरकार को इस पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए।

परंतु क्या सरकार नए ढांचे को बजट के माध्यम से पेश करेगी? बीते कई वर्षों के दौरान आम बजट के भाषणों में ऐसी घोषणाएं नहीं की गई हैं जो शेयर बाजार पर असर डाल सकती हों। सरकार नहीं चाहेगी कि शेयर बाजार के किसी भी हिस्से को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकने वाली किसी भी अलोकप्रिय खबर को बजट के सकारात्मक प्रभावों या उसके कर राहत संबंधी प्रस्तावों के प्रभावों को नष्ट करने दिया जाए। ऐसे में बजट में शायद उन्हीं बातों को शामिल किया जाए जो शेयर बाजार पर सकारात्मक असर डालें। पूंजीगत लाभ



कर व्यवस्था के पुनर्गठन जैसी बातें, जो कुछ लोगों को खुश तो कुछ अन्य को नाखुश कर सकती हैं, उनसे शायद बचा जाए। वर्ष2024-25 के बजट में अलग-अलग तरह की संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ कर की जरूरतों को सरल किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक कार्य इस वर्ष बाद में करने के लिए एक अधिकारप्राप्त समिति पर छोड़े जा सकते हैं।

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने और पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने की बात मोदी सरकार के लिए मौजूदा राजनीतिक माहौल में अनुकूल साबित हो सकती है। चुनाव के बाद हुए हालिया सर्वेक्षण बताते हैं कि ग्रामीण भारत में सप्ताधारी दल को लेकर रुचि कम हुई है। ऐसे में 2024-25 का बजट मनरेगा और पीएम किसान की राशि के प्रति शुक्राच वाला हो सकता है। मनरेगा के मेहनताने में हाल के वर्षों में बढ़ी महंगाई नजर आनी चाहिए। इसी तरह पीएम किसान योजना के तहत 2019 में 6,000

# कीनिया में गहराते आर्थिक संकट का नहीं दिख रहा समाधान

### शोभना जैन

कीनिया में सरकार के खिलाफ विवादास्पद वित्त विधेयक को लेकर पिछले एक सप्ताह से चल रहे अब तक के सबसे भीषण, उग्र प्रदर्शनों और हिंसा को लगातार और उग्र रूप लेते देख राष्ट्रपति विलियम रूटो ने आखिर देश में करों में वृद्धि संबंधी विवादास्पद वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर न करके उसे ठंडे बस्ते में डालने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे देश के युवाओं और प्रदर्शनकारियों से इस समस्या का हल निकालने के लिए संवाद का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन विधेयक की वापसी ही पूर्ण समाधान नहीं है, इसके साथ सरकार को जनता को भरोसे में लेकर स्थितियों के अनुरूप कदम उठाने से ही रास्ता बनेगा। सरकार का कहना है कि इस कर बढ़ोत्तरी से उसे कर्ज उतारने में मदद मिलती। गौरतलब है कि कीनिया को चीन, अंतरराष्ट्रीय मुद्राक्रोष, विश्व बैंक सहित अनेक देशों/संस्थानों ने भारी मात्रा में कर्ज दिया है और चीन का कर्ज उतारने का भारी दबाव भी है। आईएमएफ सरकार से लगातार कह रहा है कि वह घाटा कम करे। वैसे संसद में यह विधेयक 195-106 के मुकाबले पारित हो चुका है। इस वित्त विधेयक के जरिये सरकार 2।7 अरब डॉलर के संसाधन जुटाना चाहती है। भारत ने वहां की अराजक स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों को पूरा एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की है। कीनिया में लगभग 20,000 भारतीय हैं। दो दिन पूर्व ही प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी घुसने की कोशिश की। हिंसा, आगजनी में अब तक 23 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों शायल हो चुके हैं। विवादास्पद विधेयक सबसे पहले मई 2024 में संसद में पेश किया गया था। इसमें ब्रेड पर 16 फीसदी टैक्स और खाने के तेल पर 25 फीसदी ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव था। अनाज, चीनी और घर का नियमित खानपान तो महंगा होता ही, इलाज वगैरह जैसे जरूरी खर्च भी बढ़ते। इसके अलावा पैसे निकालने पर टैक्स बढ़ाने और गाड़ी की कीमत पर ढाई फीसदी का सालाना ऑनरशिप टैक्स लगाने की बात भी थी। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने कुछ प्रावधानों में फेरबदल किए। मगर अधिकतर विवादास्पद प्रावधान ज्यों के त्यों रहे जिससे लोग आर्थिक बदहाली और बढ़ने को लेकर आशंकित, फिक्रमंद हो रहे थे। सरकार का तर्क था कि उसको अंतरराष्ट्रीय बैंकों का कर्ज चुकाना है। सरकार की कमाई से ज्यादा खर्च है। जिसके चलते बजट घाटे में चल रहा है। घाटा तभी कम होगा जब कमाई बढ़े। इसको बढ़ाने के लिए सरकार नए टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह स्थिति रातोरात इतनी भयावह नहीं हुई है। ऐसे संवेदनशील मामलों में शासकों को नीतियां बनाते समय दूरगामी दृष्टि रखते हुए जनता को समय रहते भरोसे में लेना चाहिए।



# जूलियन असांज के खुलासे से दुनिया में उथलपुथल

### चंद्रभूषण

विकीलीक्स के संस्थापक-संपादक जूलियन असांज की रिहाई के साथ राजकाज में पारदर्शिता की मांग से जुड़ी एक लंबी लड़ाई का पटाक्षेप हो गया। अमेरिका सहित कई देशों के बहुत सारे सरकारी रहस्यों के पर्दाफाश में अहम भूमिका निभाने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई हैकर को कुल बारह साल दुनिया से अलग-थलग रहकर बिताने पड़े। ये रहस्य असांज ने जासूसी करके नहीं निकाले थे। उनका दोष सिर्फ ऊंचे सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों की बातचीत और उनके ऑडियो-विडियो आदान-प्रदान को खुले में ला देने का था। यह रिहाई भी उन्हें खुद को अमेरिका के जासूसी कानून के उल्लंघन का दोषी मान लेने के बाद जमानत की शक्त में हासिल हुई है। इस तकनीकी आधार पर कि उनका अपराध उन्हें पांच साल से ज्यादा की सजा का हकदार नहीं बनाता, जो वे पहले ही भुगत चुके हैं।

जूलियन असांज ने सरकारी दस्तावेजों के खुलासे के लिए एक ग्लोबल प्लैटफॉर्म के रूप में 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की। तब से लेकर 2012 में इकाडोर के दूतावास में एक किस्म की नजरबंदी में जाने के पहले तक उन्होंने जो किया, उस पर जाने से पहले हमें उस हड़बड़ी को याद करना चाहिए जो उस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और स्वीडन की ताकतवर 'लोकतांत्रिक' सरकारों में दिखाई पड़ रही थी। असांज को कहीं से भी किसी शर्त पर पकड़वा लेने की कोशिश में उनपर स्वीडन में यौन उत्पीड़न का एक मुकदमा दायर किया गया। सबसे विचित्र बात थी मुकदमा दायर करने वाली महिला का यह बयान कि यौन संसर्ग शुरू होने से पहले उन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी लेकिन यौनक्रिया के बीच में ही स्वीकृति वापस ले ली, लिहाजा उत्पीड़न तो हुआ।

गनीमत रही कि उस समय इकाडोर के दूतावास ने असांज को अपने यहां शरण दे दी। 2019 में ब्रिटेन की



पुलिस उन्हें दूतावास से जेल ले जाने में सफल हुई, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने ब्रिटेन पर असांज के प्रत्यावर्तन के लिए दबाव बनाया तो एक ब्रिटिश अदालत ने अपनी सरकार को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। इक्कीसवीं सदी का यह भी एक कमाल ही कहा जाएगा कि अपने हुनर का माहिर एक सामान्य व्यक्ति किसी चोरी-चकारी के लिए नहीं, अपनी समझ से एक नैतिक काम करने के लिए, जनता के पैसों पर चलने वाली सरकारों का कच्चा-चिड़्डा उजागर करने के लिए इतनी दूर तक चला आया और जानलेवा खतरों के बावजूद काम पकड़कर गिड़गिड़ाने का रास्ता भी नहीं अपनाया।

ऐसे तो विकीलीक्स पर कई सरकारों के छोटे-बड़े रहस्य उजागर हुए लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची अमेरिका को लगी, क्योंकि सामने आए दस्तावेजों ने कुछेक बड़े अमेरिकी अफसरों और नेताओं को मिट्टी पलींद कर दी। अफगानिस्तान में तैनात एक अमेरिकी जनरल ने उस समय उपराष्ट्रपति रहे मौजूदा राष्ट्रपति जोसफ बाइडन को कहीं अचकें में एक बड़ी गंदी गाली दी थी, जिसका जिक्र किसी और अफसर ने अपने ईमेल में किसी हमजोली को कर दिया था। नतीजा यह कि जनरल और सत्ता को तो जाना ही पड़ा, बाइडन को भी 'छवि सुधार परिियोजना' चलानी पड़ गई। अमेरिका के लिए भारी शर्मिंदगी का बायस वह वीडियो बना, जिसमें एक फौजी अपाची हेलिकॉप्टर ने

करना ही होगा। कुछ वर्ष पहले शुरू हुए इन सुधारों को पूरा करना समझदारी भरा होगा। मध्य वर्ग के लिए कर दरों में कटौती के आधार पर बजट का आकलन करना सही नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में अनिश्चितता को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर कर को कम करना जोखिम भर हो सकता है। बजट का ऐसी मांगों के पूरा होने के आधार पर आकलन करने के बजाय उसका आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि यह कम से कम कर नीतिगत कमियों से बच पाता है या नहीं। पहली, इसे राजकोषीय मजबूती की उस राह से परे नहीं हटना चाहिए जो कोविड के बाद के वर्षों में बजट में रेखांकित की गई। हां, अगर इसके लिए लक्ष्य को एक वर्ष आगे बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। दूसरा, बजट को कुछ वर्ष पहले शुरू की गई आयात शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया को पलट देना चाहिए। अगर देश की निर्यात वृद्धि को तेज करना है तो आयात शुल्क कम करने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करनी चाहिए। तीसरा, सरकार को अधोसंरचना तैयार करने में निवेश कम करना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में सरकार के पूंजीगत व्यय ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। अभी तक निजी निवेश में सुधार के कोई संकेत नहीं नजर आए हैं। आखिर में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत क्षेत्रों की तादाद बढ़ाने की चाह पर अंकुश लगना चाहिए। पीएलआई योजना की कई लागत ऐसी हैं जो केंद्र के साथ विनिर्माण क्षेत्र को भी चुकानी पड़ रही हैं।

इराक में गोलीबारी करके ग्यारह आम लोगों को मार गिराया था। इस खुलासे का नुकसान यह हुआ कि सद्दाम को मृत्युदंड दिए जाने के बाद इराक में बनी शिया हुकूमत अमेरिका के बुरी तरह खिलाफ हो गई और ईरान से उसकी नजदीकी बढ़ती गई। उसे काबू में रखने के लिए ब्राइड ओबामा की सरकार ने आइसूस नाम के कट्टरपंथी संगठन की पीठ टोक दी। जल्द ही उसका फैलाव भस्मासुर की तरह होने लगा लेकिन उसकी कत्तोलगारत के बावजूद अमेरिका को कुछ करते नहीं बन रहा था।

विकीलीक्स की एक बड़ी शिकार हिलेरी क्लिंटन भी बनीं, जिनकी उम्मीदवारी 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुत गंभीर मानी जा रही थी। लेकिन अपने चुनाव अधिकारियों के साथ उनकी कुछ खतो-कितावत इतनी संवेदनशील निकली कि अमेरिका का डेमोक्रेट जनमत उनके खिलाफ भले न हुआ, उसका उत्साह जाता रहा और डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ हिलेरी चुनाव हार गई।

भारत में विकीलीक्स का कोई बड़ा धमाका तो नहीं हुआ लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपत से देश में हिंदूवादी राजनीति को लेकर कोई बात कही- शायद यह कि बहुसंख्यकवादी कट्टरपंथ यहां अल्पसंख्यक कट्टरपंथ की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है- जो लौक हो गई।

यहां विकीलीक्स की लाई उथल-पुथल के पीछे जूलियन असांज के अलावा जिस एक व्यक्ति की भूमिका खास तौर पर रेखांकित की जानी चाहिए, वे हैं अमेरिका की सैन्य गुप्तचर सेवा से जुड़ी चेल्सी मैनिंग, जो ब्रेडली एडवर्ड मैनिंग नाम का पुरुष हुआ करती थीं। उन्हें तो शायद 35 साल जेल में बिताने पड़ते लेकिन बराक ओबामा ने बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने आखिरी दिन यही काम किया कि उनकी सजा माफ कर दी।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, असांज और मैनिंग जैसे लोग पारदर्शी राजकाज की इच्छा के ही प्रतिनिधि हैं। सरकारों को उनपर गरजने-बरसने के बजाय जब-तब अपने गिरेबान में झंकाकर देख लेना चाहिए।

## नाराज हों, मगर सरकार का काम भी देखें

### अवधेश कुमार

इन दिनों भाजपा लोकसभा अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान है। इन दो राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट रहा है, जिससे भाजपा हिल गई है। पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी और निराशा उसके अपने कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और प्रतिबद्ध समर्थक प्रकट कर रहे हैं। इन्हें या इनके जैसे लोगों को अनदेखा किया जाना, उम्मीदवारों का उनकी कसौटी पर सही नहीं होना और केन्द्र व प्रदेशों में उच्च पदों पर बैठे अनेक लोगों का सही व्यवहार न होना, जैसी शिकायतों को स्वीकार करने में समस्या नहीं है। किंतु इनमें ज्यादातर लोग हिंदुत्व, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक न्याय आदि के आधार पर अपने विचार और व्यवहार निर्धारित करते हैं। भावावेश में ये लोग इस टुक टुक को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इन मसलों पर स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी सरकार ही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मायने में राजनीति में आज तक के सबसे प्रखर, मुखर और निर्णय लेने वाले नेता बन चुके हैं। 2019 में अमित शाह द्वारा गृह मंत्रालय संचालने के बाद हिंदुत्व और भारतीयत्व से जुड़े मसलों पर सरकार ज्यादा दृढ़ हुई है। समर्थकों की अपेक्षाएं से अलग हटकर इस नेतृत्व की दूसरे दलों और नेताओं से तुलना करें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। निस्संदेह, भाजपा के संगठन और सत्ता को लेकर सोच, आचार और व्यवहार में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है और यह आसानी से नहीं हो सकता। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर ऐसी समितियां बनें जो स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों से बातचीत कर तथ्य इकट्ठा करें और उनके अनुसार तात्कालिक और दूरगामी दृष्टि से जो भी जरूरी हों, वे बदलाव किए जाएं। सच यह भी है कि मंत्रालयों को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं में ज्यादातर अपनी भूमिकाओं पर लचर साबित हुई हैं। शिक्षा, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, समाज विज्ञान आदि से जुड़ी संस्थाओं ने वाकई 10 वर्षों में ऐसे रेखांकित करने वाले काम नहीं किए, जिससे आरोपित विकृत वामपंथी सिद्धांत, धारणाएं और नैरेटिव ध्वस्त हो सकें। सरकारी विभागों की तो छोड़िए विश्वविद्यालयों आदि के संरचनात्मक ढांचे में भी बदलाव नहीं हुए। दूसरी ओर यह भी सच है नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के दूरगामी भविष्य का ध्यान रखते हुए ऐसे कार्य किए जिनकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, नागरिकता संशोधन कानून, एक साथ तीन तलाक के विरुद्ध कानून, भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा गोहत्या निषेध की कानूनी व्यवस्था, आतंकवादी हमले के विरुद्ध पाकिस्तान सीमा के अंदर कार्रवाई, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप जी20 और ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवंशियों के बीच कार्यक्रमों और संबोधनों से भारत, भारतीय सभ्यता-संस्कृति और हिंदुत्व को लेकर फैलाया गया गर्व भाव, हिंदुओं के आस्था केंद्रों का भय्य पुनर्निर्माण जैसे कार्य विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए संतोष के विषय होने चाहिए। सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व संभालने के साथ पिछले 10 वर्षों में हमें एक बदला हुआ भारत दिखाता है। आज अमेरिका सहित विश्व के कई प्रमुख देश आरोप लगा रहे हैं कि भारत उनकी धरती पर हत्याएं करवा रहा है। पाकिस्तान में मारे जाने वाले भारत विरोधी वांछित आतंकवादियों की संख्या दो दर्जन से ज्यादा हो चुकी है। यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है इस पर प्रमाणित तथ्यक दावे कठिन है, किंतु पूर्व में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक ऐसे नए मुखर भारत का उदय हुआ है जो अपने राष्ट्रीय हित पर केंद्रित विचार से निर्णय करते समय यह नहीं सोचता कि कौन देश इससे नाराज होगा और कौन खुश। एक समय निर्गुट आंदोलन के नाम से अवश्य वैश्विक संगठन कला लेकिन निर्गुटता का साकार रूप हमने नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ही देखा है। आज भारत किसी के गुट में नहीं लेकिन किसी के विरुद्ध भी नहीं। सबसे बड़ी बात कि भारत को भारत के रूप में जानने और उसी तरह से व्यवहार करने की सोच विश्व समुदाय के अंदर गहरी हुई है और यह असाधारण बदलाव है। इसी कारण दुनिया के अनेक सरकारी गैर सरकारी शक्तियां नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें सत्ता से बाहर करने की कोशिशों में भी लगी हुई हैं। इसलिए भाजपा और सरकार के चेहरे चित्र और सत्ता में बदलाव के लिए आवाज उठे यह तो ठीक है, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं का ध्यान रखना भी जरूरी है।



कि सामने वाला देश प्रतिक्रिया में दूसरा हमला नहीं कर सके।

उदाहरण के लिए अगर जमीन पर स्थित मिसाइलों पर हमला किया भी जाए तो भी परमाणु पनडुब्बियां बची रहेंगी। यानी अगर एक देश हमला करता है तो दूसरा देश प्रतिरोध करेगा। इससे दोनों को क्षति पहुंचेगी। अगर दूसरे देश को लगता है कि पहले देश ने परमाणु हमला किया है तो वह भी अपने हथियार नष्ट होने के पहले हमला करेगा।

साझा विनाश की आशंक्ति अथवा म्युचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन (एमएडी) का यह परिदृश्य ही उन रणनीतियों की बुनियाद है जो परमाणु युद्ध रोकने के लिए बनाई जा सकती हैं। कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों के कारण ही शीत युद्ध के दौरान कभी माहौल बहुत अधिक नहीं बिगड़ा। इसलिए कि नाटो और वारसा संधि के देश एमएडी को लेकर सचेत थे।

परमाणु हथियारों को लेकर सिद्धांत गढ़ने वालों का कहना है कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी और दूसरा, इन हथियारों के प्रभारी व्यक्ति तार्किक सोच-समझ वाले लोग हैं। अतीत में कई मौकों पर तकनीकी गलतियों के कारण गलत अलार्म बजने से परमाणु हमलों को लेकर भ्रम और घबराहट की स्थिति बन चुकी है।

प्रसार के साथ भी कई आशंकाएं जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन, कोरिया, ताइवान या गाजा में जो कुछ घटित हो रहा है, वैसी स्थितियां भड़काने का काम कर सकती हैं। इसके अलावा चेतावनी देने वाली प्रणालियां और मिसाइलें अर्द्ध स्वचालित हो रही हैं। वे

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से संचालित हैं। एक भय यह भी है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

परंतु फिलहाल इनका नियंत्रण मनुष्यों के हाथ में है और अलग-अलग देशों में इनके नियंत्रण के लिए अलग-अलग प्रणालियां हैं। अमेरिका में परमाणु हथियारों के कोड जिस ब्रीफकेस में रखे जाते हैं उसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है।

क्या जिन लोगों को इन हथियारों को चलाने वाले कोड का प्रभारी बनाया गया है वे सभी समझदार और तार्किक लोग हैं? कोई नहीं जानता है कि उत्तर कोरिया का नेतृत्व कितनी समझदारी दिखाएगा। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का चाहे जो नतीजा हो वहां का न्यूक्लियर फुटबाल किसी न किसी तरह दो बुजुर्गों में से किसी एक के हाथ में रहेगा। दोनों के बारे में आलोचक यह कहते हैं कि उन्हें मानसिक समस्याएं हैं। एक और परमाणु क्षमता संपन्न देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो खुद को 'अजैविक' मानता है। वहाँ इसके पश्चिमी पड़ोसी देश की राजनीति इतनी उलझी हुई है कि यही नहीं पता है कि वहां परमाणु हथियारों पर किसका नियंत्रण है। एक अन्य परमाणु क्षमता संपन्न देश का शासन एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिसने बिना परमाणु हथियारों के प्रयोग किए ही गाजा को नरक में तब्दील कर दिया है।

एक अन्य परमाणु हथियार संपन्न देश यूक्रेन में अंतहीन युद्ध में उलझा हुआ है और बीते तीन साल में उसने बार-बार परमाणु हमला करने की धमकी दी है। उधर एक और देश ने हाल ही में ताईवान पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। बेहतर पहलू पर नजर डालें तो यूनाइटेड किंगडम में चुनाव होने वाला है वहाँ शायद वहां अगला प्रधानमंत्री एक विवेकसंपन्न व्यक्ति बने। फ्रांस के राष्ट्रपति भी तार्किक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। घटनाएं बहुत विश्वास पैदा करने वाली नहीं हैं क्योंकि अगर परमाणु हथियारों के एक भी प्रभारी व्यक्ति ने पालतुपन का प्रदर्शन किया तो दुनिया खतरे में आ जाएगी।



# बिना मेकअप के इन टिप्स से बढ़ेगी आपकी खूबसूरती



**पानी का ज्यादा सेवन करना न सिर्फ हमारे पेट को सेहतमंद बनाए रखने में मददगार साबित होता है बल्कि ये हमारी सुंदरता भी बढ़ता है। ब्यूटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए रोजाना खाली पेट पानी का सेवन करना चाहिए।**

कहते हैं वो सुंदरता भी क्या जिसे दिखाने के लिए किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि असली सुंदरता बिना मेकअप की ही मानी जाती है जिसे नेचुरल ब्यूटी कहा जाता है। हालांकि, नेचुरल ब्यूटी न होने का कारण हमारे द्वारा ही बरती गई लापरवाही होती है। जिस वजह से सुंदर दिखाने के लिए हमें तरह-तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है।

कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो बिना मेकअप करें भी काफी सुंदर नजर आती हैं। इसके पीछे की वजह उनका डेली लाइफ रूटीन हो सकता है। दरअसल, रोजाना कुछ नियम को अपनाकर आप अपनी सुंदरता को काफी बढ़ा सकते हैं। इससे आपका चेहरा दाग-धब्बा मुक्त और चमकदार हो सकता है। ब्यूटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सुंदर दिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मेकअप का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से चेहरे की नेचुरल ब्यूटी खत्म होने लगती है। अपने लाइफस्टाइल में कुछ आदतों को शामिल करने से आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसे लगाए बिना ही आप गजब की सुंदर और क्यूट नजर आने लगती हैं। वहीं, आज हम आपको इन्हीं कुछ अच्छी आदतों वाली टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको सुंदर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं, आइए जानते हैं...


## ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं

पानी का ज्यादा सेवन करना न सिर्फ हमारे पेट को सेहतमंद बनाए रखने में मददगार साबित होता है बल्कि ये हमारी सुंदरता भी बढ़ता है। ब्यूटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए रोजाना खाली पेट पानी का सेवन करना चाहिए। इसके लिए दिन में जितना ज्यादा पानी पी सकें उतना ज्यादा पीएं। इससे शरीर में जमे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और त्वचा पर निखार आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा झुर्रियां और दाग-धब्बे भी कम होने लगते हैं। साथ ही

त्वचा में नमी बनी रहती है।

## चेहरे की मसाज करें

चमकदार चेहरा बनाने के लिए उसकी केयर करना भी काफी जरूरी है। इसलिए रोजाना रात में सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक अपने चेहरे की मसाज करें। इसके लिए आप एक अच्छी नाइट क्रीम या सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे



नियमित तौर पर लगातार एक हफ्ते अपनाने से आपके चेहरे पर हो रही फाइन लाइन्स हट जाएगी। इसके साथ ही त्वचा

चमकदार और कसाव वाली हो जाएगी।

## ब्यूटी स्लीप लें

रोजाना करीब 8 घंटे की नींद लेना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसलिए जो व्यक्ति सही नींद नहीं लेते हैं उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और चेहरे की चमक गायब हो जाती है। इसके अलावा पूरा दिन आलस से भरा हुआ लगता है। ऐसे में 7 से 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप लेना काफी जरूर है। जिस दिन से आप पूरी नींद लेने शुरू कर देंगे उसके अगले दिन से ही आपको खुद में फर्क नजर आने लगेगा। आप न केवल एक्टिव महसूस करेंगे बल्कि आपका चेहरा भी खिला-खिला और खूबसूरत दिखने लगेगा।

## बालों को रखें खास ख्याल


व्यक्ति की खूबसूरती उसके चेहरे के साथ बालों से भी होती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बालों का भी खास ख्याल रखें। बालों का साफ-सुथार रखें और अपने हेयरस के मुताबिक उनकी केयर करें। इसके अलावा एक अच्छा हेयर कट करवाएं और बालों पर अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करें।



## सही फिटिंग की ड्रेस पहनें

हमारा पहनावा भी हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है कि आप कपड़े के मामले में एक अच्छी फिटिंग का खास ध्यान रखें। इसके साथ ही ऐसे रंग का चयन करें जो आप पर खिले। इसके अलावा अपने बॉडी शेप के अनुसार ऐसे कपड़े पहनें जिसे पहनकर आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करें।

● सिमरन सिंह



## एजिंग की समस्या को दूर करेंगे ये 5 फूड्स, स्किन होगी टाइट

**उम्र के बढ़ने से चेहरे पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स नजर आने लगती हैं। जिससे चेहरे की खूबसूरती खत्म होने लगती है। अगर आप भी एकदम जवान दिखना चाहती हैं तो इन 5 फूड्स का सेवन जरूर करें।**

उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर एजिंग दिखना प्राकृतिक चेंज है। दरअसल, उम्र के बढ़ने से स्किन में डीलापन, झुर्रियां और फाइन लाइन्स देखने को मिलती हैं। हालांकि, कई बार गलत खानपान और पोषण की कमी की वजह से कम उम्र में ही लोगों को ये दिक्कतें होने लगती हैं। जिस वजह से लोग बुढ़ापे से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप रोजाना इन 5 फूड्स का सेवन कर सकते हैं। इन फूड्स में विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो स्किन को अंदर से पोषण देते हैं और उसे जवान रखने के लिए मदद करती हैं।

### बेरीज

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बेरीज का। बेरीज के सेवन करने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो सकती हैं। बेरीज में पोटेसियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और के, फाइबर और अन्य प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती हैं जो स्किन में कोलेजन बढ़ाती हैं।

### साल्मन

साल्मन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है जो स्किन को जवान रखता है।

### दिकन

चिकन की हड्डियों से बने वाला सूप को बोन ब्रॉथ कहते हैं जो कोलेजन का बढ़िया स्रोत है। इसके सेवन से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। इसके साथ ही स्किन टाइट होती है।

### अंडा

अगर आप चेहरे से झुर्रियां को गायब करना चाहते हैं तो आप अंडा का सेवन कर सकते हैं। अंडे में पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो स्किन को यंग एंड ब्यूटीफुल रखने में मदद करती हैं।

### विटामिन सी रिच डाइट का सेवन

स्किन को जवान रखने के लिए आप अपनी डाइट में रोजाना विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन कर सकते हैं। जो स्किन को जवान रखती हैं।

## इन घरेलू नुस्खों से पाएं सफेद बालों से छुटकारा

आजकल के खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण महिलाओं के बाल समय से पहले ही सफेद होते जा रहे हैं। बाल सफेद होने का कारण पोषक तत्वों की कमी भी हो सकता है। सफेद बालों को छुपाने के लिए महिलाएं बालों में कई तरह की चीजें भी लगाती हैं। इनमें से एक मेहंदी भी है। मेहंदी से बाल नैचुरली काले होते हैं। आर्टिफिशियल कलर बालों को लुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आप मेहंदी में कुछ चीजें मिलाकर बालों में लगा सकते हैं।

### मेहंदी में मिलाएं तेल



आप सरस, नारियस या फिर आरंडा का तेल मेहंदी में लगाएं। यह आपके बालों को काला करने में मदद करेगी। आप तेल में 2-3 चम्मच मेहंदी का पाउडर मिलाकर एक लोहे के बर्तन में डालें। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लें। अब इसे ठंडा होने के रख दें। जैसे तेल ठंडा हो जाए तो इसे कांच की कट्टर में स्टोर कर लें। नहाने से कम से कम 4 घंटे पहले आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक रात के लिए भी तेल बालों में लगा सकते हैं। तय समय के बाद बाल किसी भी शैम्पू से धो लें। तेल का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं।

### आंवला मिलाकर लगाएं

आंवला भी बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। एक बर्तन में आंवला पाउडर डालें। फिर इसमें मेहंदी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मिश्रण में थोड़ा सा पानी मिक्स करें। पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट को

बालों में कम से कम 4-5 घंटे के लिए बालों में लगाएं। तय समय के बाद बाल माइल्ड शैम्पू से धो लें। इसके अलावा पेस्ट आप सारी रात के लिए भी बालों पर लगा रहने दे सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार पेस्ट बालों में आप लगा सकते हैं।

### काँफी और इंडिगो मिलाएं


आप बालों को नेचुरल तरीके से काला करने के लिए काँफी और इंडिगो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। काँफी बालों को शाइनी और रंग देने में बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। मेहंदी पाउडर में



2-3 चम्मच इंडिगो और 1 चम्मच काँफी मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को मिक्स कर लें। गर्म पानी में डालें और फिर पेस्ट तैयार कर लें। तैयार किए गए पेस्ट को बालों में 4-5 घंटे के लिए लगाएं। तय समय के बाद शैम्पू से बाल धो लें। आप यह पेस्ट हफ्ते में 2-3 बार बालों में लगा सकते हैं।

### केला मिलाएं

आप मेहंदी में केला मिलाकर भी बालों को काला कर सकते हैं। पके हुए केले को अच्छे से मैश कर लें। इसके बाद इसमें मेहंदी पाउडर डालें। पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए बालों में लगाएं। तय समय




के

बाद बाल शैम्पू से

धो लें। आप हफ्ते में 2-3 बार इस पेस्ट को बालों में लगा सकते हैं।

### अंडा और नींबू मिलाएं

अंडा भी बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा नींबू में विटामिन-सी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह तीनों चीजें आपके बालों का काला करने में बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। अंडे का सफेद भाग मेहंदी



में मिलाएं। इसके बाद इसमें नींबू का रस मिला दें। जरूरत के मुताबिक, पेस्ट में पानी मिलाएं। पेस्ट को बालों में लगाएं। 4-5 घंटे के लिए पेस्ट बालों में लगाएं। तय समय के बाद बाल सादे पानी से धो लें। पेस्ट का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं।

### ब्लैक टी लगाएं

आप बालों में ब्लैक टी भी लगा सकते हैं। ब्लैक टी बालों को नेचुरली काला करने में सहायता करती है। बालों में ब्लैक टी लगाने के लिए आप एक कप पानी में ब्लैक टी के पत्ते डालें। इन्हें कुछ देर के लिए उबाल लें। उबालने के बाद मिश्रण को बालों में लगाएं। एक घंटे के बाद बाल धो लें।

### करी पत्ता लगाएं



आप बालों में करी पत्ता लगा सकती हैं। करी पत्ता भी आपके बालों को नेचुरली काला करने में सहायता करेगा। नारियल के तेल में

आप करी पत्ता लगाकर बालों में लगा सकते हैं। नारियल के तेल में करी पत्ता डालें। इस मिश्रण को गर्म कर लें। तेल तबतक गर्म करें, जबतक अच्छे से काला न हो जाए। इसके बाद बालों में 1 घंटे के लिए तेल लगाएं। तय समय के बाद बाल सादे पानी से धो लें।

### आलू के छिलके लगाएं

आप आलू के छिलके भी बालों को नेचुरल तरीके से काला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलके लें। इन्हें तबतक उबालें जबतक मिश्रण थोड़ा गाढ़ा न हो जाए। गाढ़ा होने के बाद मिश्रण एक कप में डाल लें। मिश्रण बालों में लगाएं। तय समय के बाद बाल सादे पानी से धो लें। आलू के छिलकों को बालों में रगड़ें। बाल नेचुरली काले हो जाएंगे।

### काली मिर्च मास्क लगाएं

आप काली मिर्च से बना हेयरमास्क भी बालों में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको काली मिर्च और दही को जरूरत पड़ेगी। काली मिर्च को ब्लेंड कर लें। फिर इसमें दही मिलाएं। तैयार पेस्ट को बालों में लगाएं। 1 घंटे के बाद बालों को सादे पानी से धो लें। काली मिर्च आपके बालों को काला करने में मदद करेगी और दही आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में मदद करेगा।



## नीतीश दिल्ली रवाना, भाजपा से विस चुनाव पर भी करेंगे बात

**पटना।** मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। सीएम तीन दिन वहां रहेंगे। इस दौरान अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी की बैठक में शामिल हो रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। इस दौरान वह कई बड़े फैसले ले सकते हैं। शनिवार को बैठक के बाद कुछ बदलाव का भी एलान भी हो सकता है। तीन दिवसीय दौरे लिए दिल्ली गए सीएम नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव पर सीट बंटवारे को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की मानें तो जदयू इस बार भाजपा के बराबर सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतरना चाहती है।

## केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देशभर में प्रदर्शन

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी 29 जून को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने कहा, देशभर में आप कार्यकर्ता जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के खिलाफ शनिवार को धरना देंगे। पाठक ने आरोप लगाया कि जब भाजपा को लगा कि केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल जाएगी, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सीबीआई को आगे कर दिया, भाजपा उन्हें (केजरीवाल) किसी भी कीमत पर जेल में रखना चाहती है।

## हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में मिली जमानत

**रांची।** जेएमएम नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के वकीलों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की दलीलें समाप्त होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले के सिलसिले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। सोरेन की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। उन्होंने सोरेन के खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत बताया।

## जयराम रमेश के दावों पर बोले लैम पित्रोदा

**नई दिल्ली।** इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद लैम पित्रोदा ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि पूर्व ने नेतृत्व को आधासन दिया था कि वह विवादों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। पित्रोदा ने कहा कि ये विचार केवल जयराम रमेश के हैं, न कि पार्टी के और वो ऐसा कहने के हकदार हैं। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि जयराम जो कहते हैं, वह जयराम का अपना नजरिया है, जरूरी नहीं कि वह पार्टी का नजरिया हो। सैम पित्रोदा लोकसभा चुनावों के बीच विवादास्पद टिप्पणियों से उत्पन्न राजनीतिक तूफान के कारण 8 मई को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने भारत में विरासत कर कानून लागू करने की कवालत की थी और इस बात का जिक्र किया था कि कैसे दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं और पश्चिम के लोग अरब की तरह दिखते हैं और पूर्व के लोग चीनी की तरह दिखते हैं।

## सपा सांसद राम गोपाल यादव के बंगले में घुसा पानी

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है। लोगों को गर्मी से हारत भी मिली है। हालांकि, जलभराव की समस्या शुरू हो गई है। पहले ही बारिश में दिल्ली के कई हिस्सों में पानी लग गया है। सुबह से ही लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वीवीआपी इलाके में भी ये दिक्रत देखने को मिल रही है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सपा सांसद राम गोपाल यादव को उनके स्टाफ के सदस्य और अन्य लोग उनकी कार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके आवास के आसपास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसके बाद सपा नेता ने एक बयान में कहा कि एनडीएमसी तैयार नहीं है। बारिश देर से हुई, फिर भी नालों की सफाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर नालों की सफाई हो गयी, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आयेगी। नीति आयोग के एक सदस्य, मंत्री, गृह राज्य मंत्री, अन्य मंत्री, नौसेना एडमिरल, जनरल यहां रहते हैं।

## राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

# लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित

नीट को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा



जिनका पालन करना होता है। समितियां गठित करनी होती हैं। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने कहा कि छात्रों को इसकी जानकारी नहीं है। वे केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस, तुणमूल कांग्रेस और डीएमके के सदस्यों के हंगामे के बीच रिजिजू ने कहा कि यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लेने से पहले विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग करता दिख रहा है। उन्होंने कहा, 9% विपक्ष को आश्वासन देता हूँ कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप जिस भी मुद्दे को उठाएंगे, हम उसका जवाब देंगे।

हालांकि, सदस्यों की नारेबाजी के बीच बिरला ने कहा कि लोगों ने इस सदन में सदस्यों को इसलिए चुना है ताकि वे मुद्दों को उठा सकें और उन पर चर्चा कर सकें। कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं चुना है। उन्होंने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा, सड़क पर प्रदर्शन और सदन के अंदर प्रदर्शन के बीच अंतर है। आप नहीं चाहते कि सदन चले? आप धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? सदन में हंगामा जारी रहने पर बिरला ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, हंगामे के बीच तुणमूल कांग्रेस के सदस्य एस के नुरल इस्लाम ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। किरन रिजिजू ने बाद में पत्रकारों से कहा, सरकार की तरफ से हमने साफ कर दिया है कि जो भी मुद्दा उठाया जाएगा, हम उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। हम सदस्यों को एक बार फिर आश्चर्य करते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन सदन की कार्यवाही को बाधित करके कांग्रेस पार्टी

द्वारा सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने की जो प्रवृत्ति अपनाई जा रही है, वह सही नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं अपील करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी पर जिम्मेदारी थोपी नहीं जा सकती। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है और दो-तीन राज्यों में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जहां तक नीट परीक्षा की बात है तो जो हुआ है वह गलत हुआ है। लेकिन अभी आप जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते हैं... सरकार ने सही फैसला लिया है। जब तक जांच नहीं हो जाती, संबंधित मंत्री जिम्मेदारी नहीं ले सकते... और आप अनावश्यक रूप से सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं सहमत नहीं हूँ।

## राहुल गांधी ने संसद में उठाया नीट का मुद्दा

### बोले- यह देश के भविष्य से जुड़ा मामला

**नई दिल्ली।** लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर संसद में सम्मानजनक और अच्छी चर्चा करने का आग्रह किया क्योंकि यह देश के युवाओं से संबंधित है। कांग्रेस नेता ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि नीट मुद्दा आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और विश्वील इत इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी अन्य चीज से पहले इस पर चर्चा की जानी चाहिए। अपने बयान में राहुल ने कहा कि यह युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और इंडिया गुट का मानना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि संसद को युवाओं को संदेश देना चाहिए कि सरकार और विपक्ष छात्रों की चिंताओं को उठाने में एक साथ हैं। मैं पीएम मोदी से आग्रह करता हूँ कि वे संसद में नीट मुद्दे पर सम्मानजनक, अच्छी चर्चा करें क्योंकि यह देश के युवाओं से संबंधित है। वहीं, संसद में राहुल ने कहा कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे - कि हम इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। इसलिए, हमने सोचा कि छात्रों का सम्मान करने के लिए



हम आज नीट पर चर्चा करेंगे, एक समर्पित चर्चा। हालांकि, स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि पहले राष्ट्रपति ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (अंडरग्रुजुएट) या एनईईटी-यूजी एनटीए द्वारा 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन इसके बाद अन्य अनियमितताओं के अलावा बिहार जैसे राज्यों में प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगे। शिक्षा मंत्रालय ने इनपुट मिलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) और एनईईटी (स्नातकोत्तर) परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) से जुड़ी कथित अनियमितताओं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की 'नाकामी' और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने की मांग को खारिज किए जाने के बाद विपक्षी संसद में शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा किया।

## लोकसभा में कार्यवाही बाधित करने के लिए किरन रिजीजू ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया

**नयी दिल्ली।** संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजीजू ने शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करने और कार्यवाही को बाधित करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और विपक्षी दल पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। लोकसभा में नीट के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित किए जाने के कुछ ही देर बाद रिजीजू का बयान आया। उन्होंने कहा, "सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन संसदीय कार्यवाही को रोकने का कांग्रेस का रवैया अच्छा नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से संसदीय परंपराओं और परिपत्रियों की अवहेलना कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ।" रिजीजू ने कहा कि संसदीय परंपराओं के अनुसार

सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा अन्य किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पहले होती है। उन्होंने कहा, "लेकिन कांग्रेस ने ऐसा मुद्दा उठाया जो सदन की गरिमा के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और पहले दूसरे मुद्दों पर बात होनी चाहिए।" रिजीजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीट का मुद्दा विस्तार से उठाने को कहा था और साथ ही कहा था कि सरकार उस पर जवाब देगी। उन्होंने कहा, "सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह नियमों के अनुसार होनी चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तीन दिन तक चलेगी। चर्चा के दौरान सदस्य विस्तार से अपने विचार रख सकते हैं।"



**श्रीनगर।** कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जथा शुक्रवार को जम्मू से कश्मीर के दो आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ, जो इस साल की तीर्थयात्रा की शुरुआत का संकेत है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को जम्मू स्थित अमरनाथ यात्रा बेस कैंप से रवाना किया।

## स्टोल प्रमुख समाचार

### भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच आज

**बारबाडोस।** रोहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया 29 जून शनिवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत ने बिना कोई मैच गंवाए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई है। दूसरी तरफ एडेन मार्करम की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला कैम्प्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस, में शनिवार को खेला जाएगा। शनिवार को बारबाडोस में किस तरह का मौसम होगा साथ ही फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे है या नहीं या फिर मैच नहीं हो पाया तो किस विजेता घोषित किया जाएगा। भारतीय टीम बारबाडोस में दूसरी बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगी तो वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेगी। शनिवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है जिससे मैच का मजा खराब हो सकता है। शनिवार को यानी 29 जून को मौसम कि रिपोर्ट के मुताबिक बादल छाए रहने की उम्मीद है और बारिश के होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि, लगातार बारिश की बात नहीं कही गई है तो वहीं इस दौरान हवा चलने की भी संभावना रहेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला आधिकारिक रूप से शनिवार को खेला जाएगा, लेकिन अगर बारिश की वजह से मैच नहीं खेला गया तो इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैच शनिवार को नहीं हो पाता है तो रविवार को मैच खेला जाएगा। फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर रविवार को भी बारिश होती है और मैच नहीं हो पाता है तो दोनों टीमों के लिए अच्छा नहीं होगा।

## सैंसेक्स 210 अंक टूट निपटी में भी गिरावट

**नई दिल्ली।** बैंकिंग और आईटी शेयरों में बिकवाली के बीच दलाल स्ट्रीट पर शुक्रवार को लगातार चार दिन से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। बैंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निपटी दिन की शुरुआत में नए ऑलटाइम हाई पर पहुंचने के बाद फिसलकर लाल निशान पर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स आज तेजी के साथ 79,457.58 के स्तर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 79,672 अंक के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया था। अंत में सेंसेक्स 210.45 अंक यानी 0.27 फीसदी टूटकर 79,032.73 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निपटी में भी 33.90 अंक यानी 0.14 फीसदी की मामूली गिरावट देखी गई। निपटी दिन के अंत में 24,010.60 अंक पर बंद हुआ। निपटी में आज 23,985.80 और 24,174.00 के रेंज में कारोबार हुआ।

## टेक कंपनी में ब्लॉक डील के जरिये बिके 1.24 करोड़ स्टॉक

**नई दिल्ली।** ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के 28 जून के ब्लॉक डील के जरिये 0.45 फीसदी यानी 1.24 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेच दिया गया है। इन शेयरों की कीमत 1,788.3 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि शेयरों की खरीदारी और बिकवाली करने वालों में कौन-कौन शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के शेयरों की 1,440.5 प्रति शेयर के भाव से बिकवाली हुई है। ब्लॉक डील के बाद एचसीएल टेक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। 27 जून को कंपनी के शेयर 1,454.90 रुपये पर क्लोज हुए थे, वे आज 1,468 रुपये पर ओपन हुए। 9:47 बजे एचसीएल टेक की शेयर प्राइस 0.26% की गिरावट के साथ 1,451.15 रुपये पर आ गई है। एचसीएल टेक के शेयर इस दौरान गिरावट में ट्रेड कर रहे हैं।

## जियो के बाद एयरटेल का भी रीचार्ज हुआ महंगा

**नई दिल्ली।** देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से मोबाइल टैरिफ रिवाइज करने के एक ही दिन बाद यानी आज दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल ने भी अपने रीचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। कंपनी ने बयान में बताया कि एंटी लेवल प्लान में 70 पैसे प्रति दिन के हिसाब से रीचार्ज में इजाजत किया है। सुनील भारती की कंपनी एयरटेल ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए बताया कि उसके मोबाइल टैरिफ में 10-21 फीसदी का इजाफा हो गया है। कंपनी का नया रीचार्ज प्लान 3 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। एयरटेल ने बयान में कहा, "भारतीय एयरटेल ने कहा है कि भारत में टेलीकॉम कंपनियों के लिए वित्तीय रूप से बेहतर बिजनेस मॉडल को सक्षम करने के लिए प्रति यूजर मोबाइल एक्सेस रेवेन्यू (ARPU) 300 रुपये से ऊपर होना चाहिए। हमारा मानना है कि ARPU का यह स्तर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम में आवश्यक पर्याप्त निवेश को सक्षम करेगा।"

## भारतीय सरकारी बॉन्ड जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में शामिल

**नई दिल्ली।** भारत शुक्रवार (28 जून) से आधिकारिक तौर पर जेपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स (जीबीआई-ईएम) का हिस्सा बन गया है। यह पहली बार है जब भारत को इस प्रतिष्ठित बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। यह कदम भारतीय बॉन्ड मार्केट, रुपये और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसका असर देश के बॉन्ड मार्केट, सरकार के राजकोषीय घाटे, चालू खाता घाटे और रुपये की वैल्यू पर पड़ेगा। भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को 28 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 10 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। कंपनी के बयान के अनुसार, जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स का अधिकतम वेट 10% होगा। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि भारतीय बॉन्ड्स को उसके जीबीआई-ईएम में कुल मिलाकर 10% वेटेज दिया जाएगा।

# अब भारत को विभिन्न क्षेत्रों में अपने सूचकांक तैयार करना चाहिए

**प्रह्लाद सबनानी**  
वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट क्षेत्रों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल ही के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवतः जान बूझकर गलत दर्शाया गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजर देश को बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपिनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां है।

बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रा स्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है, अर्थात् इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाकर पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है।

इसी प्रकार, भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, इस भीषण गर्मी के मौसम में पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वां स्थान पर बताई गई है। जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है, परंतु पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को ही जैसे खतरे में बताया जा रहा है और एक तरह से भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल पश्चिमी देशों में कुछ शक्तियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकत विभिन्न सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। कुछ समय पूर्व एक

विपक्षी दलों को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक स्थान मिले हैं और उन्होंने भी चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है। चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वां स्थान पर बताई गई है। जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है, परंतु पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को ही जैसे खतरे में बताया जा रहा है और एक तरह से भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल पश्चिमी देशों में कुछ शक्तियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकत विभिन्न सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। कुछ समय पूर्व एक

अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में यह बताया गया था कि भारत की तुलना में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, एथियोपिया, नेपाल, भूटान आदि देशों में भुखमरी की स्थिति बेहतर है। अर्थात्, सर्व में शामिल किए गए 121 देशों की सूची में श्रीलंका का स्थान 64वां, म्यांमार का 71वां, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां, एथियोपिया का 104वां एवं भारत का 107वां स्थान बताया गया था। जबकि पूरा विश्व जानता है कि व श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है जिसके चलते इन देशों के नागरिकों के लिए दूरी की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि, भारत कई देशों को आज खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिर किस प्रकार उक्त सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं।





रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और दुर्गा लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से सौजन्य मुलाकात की।

### निकाय चुनाव बलेट पेपर से कराने की मांग लेकर निर्वाचन आयुक्त से मिले महापौर व पार्षद

रायपुर। महापौर एजाज देबर आज पार्षदों के साथ दोपहर निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से मिले। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम की जगह मत पत्र से कराने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उनके साथ सभापति प्रमोद दुबे, एमआईसी मेबरस ज्ञानेश शर्मा व श्रीकृष्ण मेहन भी साथ थे। श्री देबर ने कहा कि कई देशों में ईवीएम प्रणाली से चुनाव खरिज किए जा रहे हैं और बलेट पेपर प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। हमारे यहां भी राजनीतिक दलों का और प्रत्याशियों का भरोसा ईवीएम प्रणाली से डगमगाया है क्योंकि इसके हैक होने की संभावना तकनीकी विशेषज्ञ बताते रहे हैं, इससे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है।

## वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने किया भूमिपूजन

### सरिया में बनेगा हायर सेकेण्डरी स्कूल का नवीन भवन: चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सारंगढ़-बिलासगढ़ जिले के सरिया में गुरुवार शाम को हायर सेकेण्डरी शाला के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। यह भवन करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉ. जवाहर नायक, श्री जगन्नाथ पाणिग्राही, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री स्वप्निल स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि शाला भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। भवन निर्माण गुणवत्ता में समझौता नहीं किया जा सकता। स्कूल ही वह मंदिर है जहां बच्चे भविष्य का निर्माण करते हैं। भूमि पूजन के



पश्चात वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने स्कूल परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर नवीन शाला भवन का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। ठेकेदार समय सीमा में काम करके देंगे। फरवरी तक नवीन शाला भवन में

हायर सेकेण्डरी स्कूल की क्लास लॉगेंगे। इस दौरान हायर सेकेण्डरी स्कूल सरिया के प्रभारी प्राचार्य श्री तिकी ने वित्त मंत्री से नवीन शाला भवन में चार अतिरिक्त कक्षा की मांग की। जिसकी वित्त मंत्री ने तत्काल घोषणा कर दी। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि छात्रों ने

दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन के बल पर एवं गुरुजनों के मार्गदर्शन में उच्च अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर शाला का नाम रोशन किया है। यहां के कक्षा दसवीं के एक छात्र ने सारंगढ़-बिलासगढ़ जिले में टॉप टेन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह अन्य मेधावी छात्रों

की यहां भरमार है। यहां वित्त मंत्री ने छात्रों को पुरस्कृत किया। छात्रों के मनोबल को बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने मेधावी छात्रों को अपनी ओर से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। इसके पहले वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी नगर पंचायत कार्यालय सरिया पहुंचे, जहां नागरिकों ने अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिए। वित्त मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के आगमन की जानकारी होने पर नगर के वार्ड क्रमांक 15 के नागरिकों ने एक बार फिर वित्त मंत्री को आवेदन किया। वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वार्ड क्रमांक 15 के लोगों से मैंने वादा किया था और वादे के अनुसार आप लोगों को मकान के लिए पट्टा दिलाया जाएगा।

## अब राजधानी में 9 गार्डन और 12 पानी टंकियों के रखरखाव का कार्य करेंगे महिला स्व सहायता समूह



रायपुर। केन्द्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय की ओर से महिला स्वसहायता समूहों के लिए जल प्रबंधन एवं उद्यानों के रखरखाव और संधारण के लिए अमृत मित्र योजना जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अमृत शहरों में महिला स्वसहायता समूह की ओर से आमजनता को शुद्ध पेयजल प्रबंधन और घरेलू पेयजल सुविधा पहुंचाई जा सके साथ ही समूहों के जीवनयापन में योजना के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सके। इसके लिए

राजधानी के 9 गार्डन और 12 पानी टंकियों के रखरखाव के कार्य महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देशानुसार पेयजल सुविधा, उद्यानों के रख-रखाव एवं संधारण एवं आमजनता को जल की उपयोगिता एवं महत्व की जागरूकता का प्रचार-प्रसार किए जाने के लिए नगर निगम, रायपुर के पंजीकृत महिला

स्वसहायता समूहों में से 7 समूहों को राज्य शासन की ओर से निर्धारित स्वच्छता दीदी के मानदेय पर अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित 9 उद्यानों के संचालन एवं संधारण के लिए एवं 12 उच्चस्तरीय जलागारों के रखरखाव के लिए एवं पेयजल प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान में 4 समूहों की ओर से कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत उद्यानों की नियमित साफ-सफाई, वृक्षारोपण,

सौंदर्यकरण एवं संधारण कार्य, जल सुरक्षा अभियान के प्रचार-प्रसार एवं उच्च स्तरीय जलागारों के लिए समूहों की ओर से जलागार के परिसर की साफ-सफाई एवं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे पेयजल की प्रेशर एवं गुणवत्ता की टेस्टिंग जोन के माध्यम से की जा रही है। उच्चस्तरीय जलागारों में नियुक्त समूहों की महिलाओं को फिल्टर प्लांट में कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा की उपस्थिति में प्रशिक्षण भी दिया गया।

### नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद में 28.16 करोड़ आवंटित

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 166 नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत कुल 28 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए आवंटित किए हैं। विभाग द्वारा राज्य की 14 नगर निगमों को दस करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, 44 नगर पालिकाओं को आठ करोड़ 70 लाख रुपए और 108 नगर पंचायतों को नौ करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत महापौर/अध्यक्ष निधि की शेष 50 प्रतिशत राशि जारी की गई है। नगरीय प्रशासन के वित्त मंत्री श्री चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत रायपुर, धिलाई, बिलासपुर और कोरबा नगर निगमों में प्रत्येक को एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की महापौर/अध्यक्ष निधि जारी की है। बिरगांव, धमतरी, दुर्ग, रिसाली, धिलाई-चरोदा, राजनांसगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और विरमिरी नगर निगमों में प्रत्येक को 56 लाख 25 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को मिला सम्मान



रायपुर। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत, गुणवत्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र सहसा व जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया। विदित हो कि स्वास्थ्य सेवाओं के गुणवत्ता पूर्ण प्रदायगी व राष्ट्रीय स्तर कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के

नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी व अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर पर कक्षा उतरते हुए यह सम्मान प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत, गुणवत्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अनुप्रीया पटेल द्वारा सम्मान प्राप्त सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ के मार्गदर्शन में

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक डॉ. जगदीश सोनकर, उप संचालक गुणवत्ता आश्वासन डॉ. डी. के. तुरै, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक आनन्द साहू, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. अभ्युदय शक्ति तिवारी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप टंडन, राज्य सलाहकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर डॉ. नरेंद्र सिन्हा, राज्य सलाहकार गुणवत्ता आश्वासन डॉ. विक्रम शर्मा, राज्य सलाहकार ब्रिज कार्यक्रम अंकिता तिवारी के साथ राज्य व जिलों से आये अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए।

### कार्यों में उदासीनता बरतने पर हटाये गए प्रभारी कार्यपालन अभियंता

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता को हटा दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में वांछित प्रगति नहीं होने और लक्षित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने में कठिनाई पाए जाने पर विभाग ने वहां के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आदित्य प्रताप को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रमुख अभियंता ने जारी आदेश में कहा कि विगत 20 जून को हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह परिलक्षित हुआ है कि बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन का कार्य संतोषजनक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के लक्षित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए वांछित गति नहीं दिए जाने से बलरामपुर जिले में मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप वांछित प्रगति प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बलरामपुर खंड के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आदित्य प्रताप को आगामी आदेश तक बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

### बी.ए.एस.एल.पी प्रथम वर्ष 2024-25 में प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि में वृद्धि

रायपुर। पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाक, कान व गला रोग विभाग (ई.एन.टी) के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (बी.ए.एस.एल.पी) पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश लेने हेतु आवेदन फॉर्म 28 मई 2024 से ऑनलाइन प्रारंभ किया गया था। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा सामान्य डाक द्वारा 27 जून 2024 तक तथा विलंब शुल्क के साथ 29 जून 2024 तक जमा किये जा सकते थे परंतु दिनांक 27.06.2024 को हुए विभागीय बैठक के निर्णय अनुसार फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई 2024 एवं विलंब शुल्क के साथ 12 जुलाई 2024 तक कर दी गयी है। आवेदन किये हुए अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18.07.2024 को वेबसाइट raipurbasip.org में जारी की जायेगी उपरोक्त जारी किए हुए मेरिट सूची में दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी दिनांक 25.07.2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उक्त दिनांक के पश्चात् दावा आपत्ति हेतु किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों की दावा-आपत्ति उपरांत अंतिम मेरिट सूची दिनांक 29.07.2024 को वेबसाइट www.raipurbasip.org में जारी की जाएगी। बी.ए.एस.एल.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 31.07.2024 को आयोजित की जाएगी।

### हाईकोर्ट ने कहा- राज्य शासन ने स्थानीय भाषाओं में किया स्कूली पढ़ाई कराने का इंतजाम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई को लेकर पेश जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन ने स्थानीय भाषाओं में स्कूली पढ़ाई कराने का इंतजाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा इस पर भी अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना को प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इसमें एनसीईआरटी के नेशनल कैरिकुलम फ्रेम वर्क में कहा गया कि मातृ भाषा से यदि पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाई करने और समझने में आसानी होती है। इस याचिका में प्रदेश के स्कूल में पहली से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को भी माध्यम बनाये जाने मांग की गई थी। जिस तरह अन्य राज्यों में वहां की मातृ भाषा में पढ़ाया जाता है वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी ने भी तीन भाषा हिंदी, इंग्लिश और मात्र भाषा की पढ़ाई को मंजूरी दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डीबी में हुई। इस दौरान शासन की ओर से बताया गया कि, शासन ने 16 प्रकार की स्थानीय भाषाओं में अध्ययन का इंतजाम किया है, चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में अलग अलग इलाकों में कई प्रकार की बोलियां हैं।

### कांग्रेस शासनकाल में मोक्षित कॉर्पोरेशन पर मेहतबान हुआ स्वास्थ्य विभाग

रायपुर। कांग्रेस शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग के सीजीएमएससी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजकोष को किस तरह से खाली किया है ये महज दो साल की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। गड़बड़ी का आंकड़ा छोटी रकम नहीं है, गड़बड़ी की रकम इतनी बड़ी है कि इस राशि से पहाड़ खड़ा हो सकता है। अगर सही तरीके से जांच हो तो अधिकारी से लेकर मंत्री तक जांच की आंच में आएं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों की गड़बड़ी की गई है। इस पूरे मामले को लक्ष्मण डॉट कॉम ने उजागर किया था। दो साल के ऑडिट में खुली पोल- लेखा परीक्षा की टीम की ओर से सीजीएमएससी की सफाई दवा और उपकरण को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 और 2023-24 के दस्तावेज को खंगाला गया तो कंपनी ने बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदी की थी, जिसे ऑडिट टीम ने पकड़ लिया है। ऑडिट में पाया गया है कि पिछले दो सालों में आवश्यकता से ज्यादा खरीदे केमिकल और उपकरण को खपाने के चक्र में नियम कानून को भी दरकिनार किया गया। जिस हॉस्पिटल में जिस केमिकल और मशीन की जरूरत नहीं वहां भी सफाई कर दिया गया। प्रदेश के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सफाई की गई, जिनमें से 350 से अधिक तकनीकी स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिसमें कोई तकनीकी, जनशक्ति और भंडारण सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी।

### आठवें मंजिल से महिणला ने लगाई छलांग, मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आत्महत्या का मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने आठवीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला को अविवाहित और मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। मृतका निर्माणाधीन बिल्डिंग के आठवीं मंजिल पर दौड़ती हुई चढ़ गई। इसके बाद वहां से छलांग लगा दी। इससे महिला मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मेरी जानकारी के अनुसार मृतका का नाम शबनम 40 वर्षीय बताया जा रहा है। मृतका महिला आरडीए कॉलोनी के एच ब्लॉक में रहती थी। बताया जा रहा है कि मृतिका महिला अविवाहित थी। वह मानसिक रूप से बीमारी थी। सुसाइड करने से पहले महिला दौड़ते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग के आठवें मंजिल पर चढ़ गई और वहां से छलांग लगा दी, महिला की फिर फटने से मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में जांच पड़ताल कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है।

## प्रदेश प्रभारी पायलट ने दिया एकजुटा का संदेश

### कांग्रेस की समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा

रायपुर। कांग्रेस की फैक्ट फाईंडिंग की पहली बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। इसमें वीरप्पा मोडली, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित प्रदेश के नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों का गुस्सा भी फूट पड़ा, जिसमें नेताओं ने हार के लिए गुटबाजी और भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद हुई इस पहली बैठक में कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बैठक



में विधायक कवासी लखमा की भी शिकायत हुई। वहीं बस्तर में हार के लिए गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया गया। कई नेताओं ने संगठन के कामकाज

पर भी सवाल उठाए। बैठक में रायपुर के नेताओं को कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते महिलाओं की कम भागदारी पर

भी कई नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस फैक्ट फाईंडिंग कमेटी की बैठक के बाद छग प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के

लिए कमेटी की बैठक हुई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, उन्होंने कहा कि छग में कांग्रेस के पक्ष में वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर एआईसीसी को सौंपी जाएगी। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के सवाल पर प्रदेश प्रभारी पायलट ने कहा कि कांग्रेस में कहीं भी आपसी गुटबाजी नहीं है। आने वाले चुनाव की तैयारी अब कांग्रेस शुरू करने वाली है। छग की भाजपा सरकार 5 से 6 माह में कहीं छाप नहीं छोड़ पाई है।

रायपुर। वाहनों से बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने सरकार कई कदम उठा रही है। इसमें ग्रीन एनर्जी का उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रायपुर के नागरिक भी ई व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन के फास्ट चार्जिंग की सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर सभाकक्ष में नगर निगम



रायपुर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया हुआ। इस एमओयू के तहत राजधानी के पांच प्रमुख स्थानों पर आईओएल फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, जिससे वाहनों का जल्द से जल्द रीचार्ज

हो पाएगा। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फास्ट चार्जिंग की सुविधा देने के लिए जिले के सुभाष स्टेडियम परिसर, पुराना स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर, गांधी उद्यान, अनुपम गार्डन और जवाहर बाजार पार्किंग का चयन किया गया है।